

**Examrace**

## विश्व के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश (Major natural areas of the world) Part 6 for Competitive Exams

Glide to success with Doorsteptutor material for UGC : Get **detailed illustrated notes covering entire syllabus**: point-by-point for high retention.

### शीतोष्ण मानसून/चीन तुल्य/शीतोष्ण पूर्वी तटीय प्रदेश:-

स्थिति एवं विस्तार-

- यह प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में  $30^{\circ}$  से  $45^{\circ}$  अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसके निम्नलिखित क्षेत्र हैं-
- मध्यवर्ती चीन तथा जापान
- यू.एस.ए. का द. पू. भाग (फ्लोरिडा)
- द. पू. ब्राजील तथा उरुग्वे
- द. पू. दक्षिण अफ्रीका (नेटाल)
- आस्ट्रेलिया का द. पू. तटीय भाग

जलवायु विशेषताएँ-

- इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में काफी गर्मी पड़ती है एवं औसत तापमान  $32^{\circ} C$  के आसपास रहता है। शीतकाल में काफी ठंड पड़ती है एवं कहीं-कहीं तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है।
- गर्मी में सूर्य के उत्तरायण होने के कारण वाणिज्य पवनों का रिसाव उत्तर की ओर होता है जिसे ये क्षेत्र वाणिज्य पवन के प्रभाव में आ जाते हैं। इसी कारण ग्रीष्म ऋतु में काफी वर्षा होती है।

प्राकृतिक वनस्पति-

- इस प्रदेश में चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओक, बीच, मैपल, बालनर, कपूर आदि यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं।

आर्थिक विकास-

- चीन के उसी जलवायु प्रदेश में विश्व का सबसे अधिक चावल उपजाया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिणी माडा में उपजाया जाता है।
- मध्य भाग में कपास एवं उत्तरी भाग में गेहूँ एवं सोयाबीन की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है।
- विश्व में चाय के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी प्रदेश में है। इसके अलावा तंबाकू, मक्का व गन्ने की भी कृषि होती है।
- विश्व का अधिकांश रेशम इसी जलवायु प्रदेश के चीन एवं जापान में उपजाया जाता है।
- अमेरिका का पूर्वी तटीय प्रदेश कपास की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।

- यह प्रदेश सघन रूप से बसा हुआ है।

Developed by: **Mindsprite Solutions**